

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-पवईअन्तर्जनपदीय चोर व लूटेरे गिरफ्तार, चोरी की तीन मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद, विभिन्न जिलों में कई मुकदमें दर्जा

वर्ष 2017 व 2021 में धर्मेन्द्र कुमार मौर्या S/O स्व0 दयाशंकर मौर्या निवासी ग्राम बहाउद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, यूपी गैगेस्टर व आर्म्स एक्ट में कुल 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। धर्मेन्द्र कुमार मौर्या व उसके साथी द्वारा पूर्व में भी मो0 साइकिल की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त हाल ही में जेल से छूटकर आये हुए हैं।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहे वाँछित/चोरो/लूटेरो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में दिनांक- 22.02.2021 को थानाध्यक्ष श्री अयोध्या तिवारी मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली की ग्राम बहाउद्दीनपुर से दो मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति चोरी की मो0सा0 लेकर बागबहार पुलिया के रास्ते बेचने के लिये जनपद जौनपुर जायेंगे इस सूचना पर विश्वास कर मुखबीर खास को साथ लेकर थानाध्यक्ष मय हमराह कर्मचारीगण के साथ बहाउद्दीनपुर पुलिया पर पहुँचकर गाढा बन्दी कर आने वाले मो0सा0 सवार व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कि कुछ ही समय में मैगना बाजार की तरफ से दो गाडियों की हेड लाइट की रोशनी आती दिखाई दी कि पास आने पर एकाएक पुलिस वाले रोड पर आकर टार्च की रोशनी दिखाकर रोकने का प्रयास किये कि मो0सा0 सवार दोनो व्यक्तियों ने अचानक अपनी मो0सा0 को मोड़कर पुनः पीछे की तरफ भागना चाहे कि दोनो मो0सा0 सवार असन्तुलित होकर गिर गये कि पुलिस वालो द्वारा दोनो व्यक्तियों को समय लगभग 20.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े हुए व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः 1. धर्मेन्द्र कुमार मौर्या 2. रामनयन मौर्या पुत्रगण स्व0 दयाशंकर मौर्या निवासीगण ग्राम बहाउद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ जिनकी जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मौर्या के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ तथा दोनो मो0सा0 के नम्बरो का ई चालन एप के माध्यम से चेक किया गया तो संदिग्ध पाये जाने पर पुनः गिरफ्तार व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये की यह दोनो मो0सा0 चोरी की है इसके अतिरिक्त एक चोरी की मो0सा0 अपने घर पर रखे है जिसके पश्चात पकड़े गये व्यक्तियों को साथ लेकर उनके घर पहुँचकर उनकी निशादेही पर एक अदद मो0सा0 बरामद किया गया। अभियुक्तगण को समय करीब 19.55 दिनांक 22.02.21 को गिरफ्तार कर बरामदी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 23/20 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि व अभि0 धर्मेन्द्र मौर्या S/O स्व0 दयाशंकर मौर्या उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 24/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

- (1)-मु0अ0सं0 23/21 धारा 41,411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़  
(2)-मु0अ0सं0 24/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण का आपराधिक इतिहास निम्नवत है -

(1) अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मौर्या प स्व0 दयाशंकर मौर्या निवासी बहाउद्दीनपुर थाना पवई आजमगढ़।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	122/17	379 भादवि	महराजगंज, आजमगढ़
2.	180/17	3(1) यूपी0 गैगे0 एक्ट	महराजगंज, आजमगढ़
3.	136/17	394 भादवि	थाना अकबरपुर, अम्बेडकरनगर
4.	102/17	379 भादवि	थाना बसखारी, अम्बेडकरनगर
5.	126/17	307/411/413/414/420/467/468/471 भादवि	थाना मालीपुर, अम्बेडकरनगर
6.	129/17	4/25 आर्म्स एक्ट	थाना मालीपुर, अम्बेडकरनगर
7.	157/17	3(1) यूपी0 गैगे0 एक्ट	थाना मालीपुर, अम्बेडकरनगर
8.	23/21	41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि	थाना पवई, आजमगढ़
9.	24/21	3/25 आर्म्स एक्ट	थाना पवई, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- (1) धर्मेन्द्र कुमार मौर्या S/O स्व0 दयाशंकर मौर्या निवासी बहाउद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़  
(2) रामनयन मौर्या S/O स्व0 दयाशंकर मौर्या निवासी ग्राम बहाउद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

- (1). 03 अदद मोटरसाइकिल (2) 01 अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री अयोध्या तिवारी मय हमराह थाना-अहरौला, आजमगढ़ 2- उ0नि0 श्री सुनील कुमार सरोज मय हमराह व  
3. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र यादव मय हमराह थाना-अहरौला, आजमगढ़